

Daily Editorial Analysis



Important Editorial Analysis

मोस्ट फेवर्ड नेशन / Most favoured nation

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा और जापान यूक्रेन पर आक्रमण पर रूस के " मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)" की स्थिति को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। इस आर्टिकल में मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गयी है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN):

मोस्ट फेवर्ड नेशन दो देशों के बीच एक व्यापारिक भागीदार को अन्य व्यापारिक भागीदारों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दिया जाने वाला उपचार है, विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे सभी एक दूसरे के सबसे कम टैरिफ, उच्चतम आयात कोटा, सीमा शुल्क संघ और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सबसे कम व्यापार बाधाओं से लाभ उठा सकें, गैर-भेदभाव के इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) उपचार के रूप में जाना जाता है।



मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) अधिमान्य रूप में:

- शाब्दिक व्याख्या में, मोस्ट फेवर्ड नेशन का अभिप्राय अधिमान्य उपचार नहीं है इसके विपरीत, इसका अर्थ गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार है जो यह सुनिश्चित करता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला देश अनुदानकर्ता के अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में नहीं होगा।



- जब किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त होता है, तो उससे व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ को कम करने की उम्मीद की जाती है।

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) स्थिति को हटाना:

- मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे को निलंबित करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या सदस्य मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे को निलंबित करने पर विश्व व्यापार संगठन को सूचित करने के लिए बाध्य हैं।
- पाकिस्तान स्थित इस्लामिक समूह द्वारा आत्मघाती हमले में 40 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बाद भारत ने 2019 में पाकिस्तान की एमएफएन स्थिति को निलंबित कर दिया था जबकि पाकिस्तान ने भारत को कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था।

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का महत्त्व:

- विकासशील देशों के लिये MFN स्टेटस व्यापार में सहयोगात्मक भूमिका निभाता है। MFN हस्ताक्षरकर्ता देशों में व्यापार हेतु सामानों की बाज़ार तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जाती है, साथ ही बहुत कम टैरिफ और व्यापार बाधाओं के चलते निर्यात होने वाली वस्तुओं की लागत में कमी आती है।
- यह आयात के क्षेत्र में आने वाली नौकरशाही बाधाओं और विभिन्न प्रकार के अन्य शुल्कों को भी कम करता है। इससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था एवं निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- मोस्ट फेवर्ड नेशन वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देता है।
- मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यापार संरक्षणवाद के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) के दोष:

- मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त देश को अन्य सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ समान व्यवहार करना पड़ता है जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं।
- यह एक मूल्य युद्ध और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की भेद्यता में तब्दील हो जाता है।
- देश सस्ते आयात से घरेलू उद्योग की रक्षा करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और इस कीमत युद्ध में कुछ घरेलू उद्योगों को भारी नुकसान या विकास प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

